

Bachelor of Arts (B.A.) Part—II Fourth Semester Examination**ECONOMICS (MACRO ECONOMICS THEORY–II)****(Optional)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

(3) Draw diagrams wherever necessary.

1. (a) Explain how the Commercial Banks create credit. State the limitation of credit creation.

OR

- (b) How does the Central Bank control credit through :

(i) Bank Rate

(ii) Open Market Operations ?

- (c) Explain the secondary functions of a commercial bank.

2. (a) Describe the scope of Health Economics. Explain the role of State and Central Govt. in financing Health Care.

OR

- (b) Define Dispersion. Explain the objectives of measuring dispersion.

- (c) Explain the concept of Standard Deviation. State the merits of it.

3. Answer the following questions in short (any **FOUR**) :—

- (a) Explain the meaning of DEMAT account.

- (b) What is online banking ?

- (c) State the advantages of E-Purse.

- (d) State the features of E-Banking.

- (e) Explain the concept of laser card.

- (f) Write a short note on Monetary Policy of RBI.

4. Answer the following questions in short (any **FOUR**) :—

- (a) State the functions of Money Market.

- (b) What is the purpose of financial institution ?

- (c) What is capital market ?

- (d) State the characteristics of Stock Exchange.

- (e) State the significance of money market.

- (f) What is a financial crisis ?

5. Choose correct option for following multiple choice objective questions :—

(All Compulsory)

- (1) Which is the more important function of Commercial Banks in recent time ?
 - (a) Credit creation
 - (b) Representative of customers
 - (c) Security Deposits
 - (d) Collecting statistics about trade
- (2) Which Bank has right to issue the currency ?
 - (a) Commercial Bank
 - (b) Central Bank
 - (c) Industrial Bank
 - (d) Bank of India
- (3) What is the full form of CBS ?
 - (a) CORE Banking Solution
 - (b) CORE Banking Software
 - (c) CORE Banking System
 - (d) CORE Banking Service
- (4) _____ was the main reason for the reduced profitability of the Commercial Banks in India.
 - (a) Liquidity Adjustment Facility
 - (b) Capital Risky Asset Ratio
 - (c) Non-Performing Assets
 - (d) Capital Adequacy management earning liquidity systems
- (5) The oldest Stock Exchange of India is _____.
 - (a) Bombay Stock Exchange
 - (b) Bangalore Stock Exchange
 - (c) Hyderabad Stock Exchange
 - (d) Ahmedabad Stock Exchange
- (6) Which one of the following is not a money market instrument ?
 - (a) Repo
 - (b) A negotiable certificate of deposit
 - (c) A Treasury Bill
 - (d) Treasury Bond
- (7) What are the reasons for health problem in India ?
 - (a) Lack of education
 - (b) Poverty for the poor
 - (c) Government Assistance
 - (d) All the above
- (8) Which average do you use in comparison of the analysis of two series variation ?
 - (a) Quartile Deviation
 - (b) Mean Deviation
 - (c) Range
 - (d) Coefficient of variation

Bachelor of Arts (B.A.) Part—II Fourth Semester Examination

ECONOMICS (MACRO ECONOMICS THEORY—II)

(Optional)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

(3) Draw diagrams wherever necessary.

(मराठी माध्यम)

1. (अ) व्यापारी अधिकोष प्रत्यय निर्मिती कशाप्रकारे करते ते स्पष्ट करा. प्रत्यय निर्मितीच्या मर्यादा सांगा.

किंवा

(ब) केंद्रीय अधिकोष खालील साधनांच्या साहाय्याने प्रत्यय नियंत्रण कशाप्रकारे करतो ?

(i) अधिकोष दर

(ii) खुल्या बाजारातील व्यवहार.

(क) व्यापारी अधिकोषाचे दुय्यम कार्ये स्पष्ट करा.

2. (अ) आरोग्य अर्थशास्त्राची व्याप्ती विशद करा. आरोग्य निगेच्या वित्त पुरवठ्यात राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करा.

किंवा

(ब) अपकिरणाची व्याख्या द्या. अपकिरण मापन करण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट करा.

(क) प्रमाप विचलनाची संकल्पना स्पष्ट करा. त्याचे गुण सांगा.

3. खालील प्रश्नांचे संक्षिप्त उत्तरे द्या (कोणतेही चार) :—

(अ) डी-मॅट खात्याचा अर्थ स्पष्ट करा.

(ब) ऑनलाइन बँकिंग म्हणजे काय ?

(क) ई-पर्सचे फायदे सांगा.

(ड) इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगचे वैशिष्ट्ये सांगा.

(इ) लेझर कार्डची संकल्पना स्पष्ट करा.

(फ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणावर टिप लिहा.

4. खालील प्रश्नांचे संक्षिप्त उत्तरे द्या (कोणतेही चार) :—

(अ) मुद्रा बाजाराची कार्ये सांगा.

(ब) वित्तीय संस्थांचा हेतू काय आहे ?

(क) भांडवल बाजार म्हणजे काय ?

(ड) स्कंध विपणीचे वैशिष्ट्ये सांगा.

(इ) मुद्रा बाजाराचे महत्व विशद करा.

(फ) 'वित्तीय संकट' काय आहे ?

(सर्व अनिवार्य)

- (1) अलीकडच्या काळात व्यापारी अधिकोषाचे महत्वाचे कार्य कोणते ?
 (अ) प्रत्यय निर्मिती (ब) ग्राहकांचा प्रतिनिधी
 (क) सुरक्षा ठेव (ड) व्यापारासंबंधी आकडेवारी गोळाकरणे
- (2) चलननिर्मिती करण्याचा अधिकार कोणत्या बँकेला आहे ?
 (अ) व्यापारी बँक (ब) केंद्रीय बँक
 (क) औद्योगिक बँक (ड) बँक ऑफ इंडिया
- (3) सीबीएसचे संपुष्ट रूप काय आहे ?
 (अ) कोअर बँकिंग पर्याय (ब) कोअर बँकिंग सॉफ्टवेअर
 (क) कोअर बँकिंग प्रणाली (ड) कोअर बँकिंग सेवा
- (4) भारतातील व्यापारी बँकांचे कमी नफ्यासाठीचे मुख्य कारण म्हणजे _____.
 (अ) तरलता समायोजन सुविधा (ब) भांडवलचा जोखीम संपत्तीशी अनुपात
 (क) अलाभकारी संपत्ती (ड) भांडवल पर्याप्तता व्यवस्थापन मिळकत तरलता प्रणाली
- (5) भारतातील सर्वात जुनी स्कंध बाजार _____ येथे आहे.
 (अ) बॉम्बे शेअर बाजार (ब) बंगलोर शेअर बाजार
 (क) हैद्राबाद शेअर बाजार (ड) अहमदाबाद शेअर बाजार
- (6) खालीलपैकी कोणते मुद्रा बाजाराचे साधन नाही ?
 (अ) रेपो (ब) ठेवीचे पराक्रम्य प्रमाणपत्र
 (क) ट्रेझरी बिल (ड) ट्रेझरी बॉण्ड
- (7) भारतात आरोग्यविषयक समस्यांचे खालीलपैकी कोणते कारण आहेत ?
 (अ) शिक्षणाचा अभाव (ब) गरिबांचे दारिद्र्य
 (क) सरकारी सहाय्य कमी (ड) वरील सर्व
- (8) दोन पदमालांतील विचरणाची तुलनाकरतांना कोणत्या माध्याचा अवलंब करतात ?
 (अ) चतुर्थक विचलन (ब) माध्य विचलन
 (क) विस्तार (ड) विचरण गुणक

Bachelor of Arts (B.A.) Part—II Fourth Semester Examination**ECONOMICS (MACRO ECONOMICS THEORY—II)****(Optional)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

(3) Draw diagrams wherever necessary.

(हिन्दी माध्यम)

1. (अ) वाणिज्य बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं ? साख निर्माण की सीमाएँ स्पष्ट कीजिये।

अथवा

(ब) मध्यवर्ती बैंक किस प्रकार निम्न माध्यमों द्वारा साख नियंत्रण करता है :

(i) बैंक दर

(ii) खुले बाजार की क्रियाएं।

(क) वाणिज्य बैंकों के द्वितीयक कार्य स्पष्ट कीजिये।

2. (अ) स्वास्थ्य अर्थशास्त्र (Health Economics) की व्याप्ति विशद कीजिये। स्वास्थ्य निगा के वित्तपूर्ति में राज्य एवं केन्द्र शासन की भूमिका स्पष्ट कीजिये।

अथवा

(ब) अपकिरण (Dispersion) की परिभाषा दीजिये। अपकिरण मापन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिये।

(क) प्रमाप विचलन की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। इसके गुण बताइये।

3. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिये (कोई भी चार) :—

(अ) डी-मॅट (DEMAT) खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

(ब) ऑनलाइन बैंकिंग (ONLINE BANKING) क्या है ?

(क) ई-पर्स (Electronic Purse) के लाभ बताइये।

(ड) इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (Electronic Banking) की विशेषताएँ बताइये।

(इ) लेजर कार्ड (Lazer Card) की संकल्पना स्पष्ट कीजिये।

(फ) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति पर टिप्पणी लिखिये।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिये (कोई भी चार) :—

(अ) मुद्रा बाजार के कार्य बताइये।

(ब) वित्तीय संस्थाओं के उद्देश्य क्या हैं ?

(क) पूँजी बाजार क्या है ?

(ड) स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) की विशेषताएँ बताइये।

(इ) मुद्रा बाजार का महत्व विशद कीजिये।

(फ) 'वित्तीय संकट' क्या है ?

(सभी अनिवार्य)

- (1) वर्तमान समय में वाणिज्य बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौनसा है ?
 (अ) साख निर्माण (ब) ग्राहकों का प्रतिनिधि
 (क) सुरक्षा जमा (Security Deposit) (ड) व्यापार संबंधी ऑकड़ों का संकलन
- (2) किस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार है ?
 (अ) वाणिज्य बैंक (ब) केन्द्रीय बैंक
 (क) औद्योगिक बैंक (ड) बैंक ऑफ इंडिया
- (3) सी.बी.एस. (C.B.S.) का पूरा रूप क्या है ?
 (अ) कोर बैंकिंग उपाय (निपटारा) (ब) कोर बैंकिंग साफ्टवेयर
 (क) कोर बैंकिंग प्रणाली (ड) कोर बैंकिंग सेवा
- (4) भारत में वाणिज्य बैंकों की लाभदायता कम होने का मुख्य कारण _____
 (अ) तरल समायोजन सुविधा (ब) पूंजी का जोखिम मालमत्ता से अनुपात
 (क) अलाभकारी मालमत्ता (ड) पूंजी पर्याप्तता प्रबंधन प्राप्ति तरल प्रणाली
- (5) भारत में सबसे पुरानी स्कंध विपणी _____ यहाँ है।
 (अ) बॉम्बे शेयर विपणी (ब) बंगलोर शेयर विपणी
 (क) हैदराबाद शेयर विपणी (ड) अहमदाबाद शेयर विपणी
- (6) निम्न में से कौनसा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है ?
 (अ) रेपो (ब) निक्षेप का पराक्रम्य प्रमाणपत्र
 (क) ट्रेझरी बिल (ड) ट्रेझरी बॉण्ड
- (7) भारत में स्वास्थ्य विषयक समस्याओं का निम्न में से कौनसा कारण है ?
 (अ) शिक्षा का अभाव (ब) गरीबों की गरीबी
 (क) सरकारी सहायता की कमी (ड) उपरोक्त सभी
- (8) दो पदमाला के विचरण की तुलना करते समय कौनसे माध्य का उपयोग किया जाता है ?
 (अ) चतुर्थक विचलन (ब) माध्य विचलन
 (क) विस्तार (ड) विचरण गुणक